

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2022—ज्येष्ठ 20, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 अप्रैल 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अति. प्रभार अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल लाईन परियोजनायें), अपर मुख्य सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, अध्यक्ष छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को केवल अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

2. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-निवेश आयुक्त, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) (मुख्यालय दिल्ली), प्रमुख सचिव, वन विभाग, प्रमुख आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को केवल प्रमुख सचिव, वन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।
3. श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से. (2006), सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, कृषि (उद्यानिकी, मत्स्यपालन, दुग्ध पालन, गोठान), नोडल अधिकारी, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी एवं छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को केवल कृषि (उद्यानिकी, मत्स्यपालन, दुग्ध पालन, गोठान) विभाग, नोडल अधिकारी, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी एवं छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।
4. श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा संचालक, भू-अभिलेख व संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
5. डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. (2009), विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष संचालक को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से., द्वारा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सचिव, वित्त विभाग, अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति केवल संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।
6. डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पद पर पदस्थ करते हुए नोडल अधिकारी, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी एवं छ.ग. गोधन न्याय योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठता एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
7. श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (2009), संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास अधिकरण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
8. श्री धर्मेज कुमार साहू, भा.प्र.से. (2010), संचालक, भू-अभिलेख तथा संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल के पद पर पदस्थ करता है।

श्री धर्मेज कुमार साहू, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठता एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
9. सुश्री इप्पत आरा, भा.प्र.से. (2012), महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सूरजपुर के पद पर पदस्थ करता है।
10. श्री गौरव कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-सूरजपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, मुंगेली के पद पर पदस्थ करता है।

11. श्री अजीत वसंत, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर जिला-मुंगेली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थ करता है.
12. श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), संयुक्त सचिव, वन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के पद पर पदस्थ करता है.
13. श्री पी. एस. ध्रुव, भा.प्र.से. (2013), संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के पद पर पदस्थ करता है.
14. श्री एस. जयवर्धन, भा.प्र.से. (2014), आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जिला-मोहला-मानपुर-चौकी के पद पर पदस्थ करता है.
15. श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), उप सचिव तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार महाप्रबंधक (प्रशासन), छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.
16. सुश्री नुपूर राशि पन्ना, भा.प्र.से. (2015), अपर कलेक्टर, दुर्ग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, चन्द्रलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ करता है.
17. श्री संबित मिश्रा, भा.प्र.से. (2018), अनुविभागीय अधिकारी, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

मछली पालन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मई 2022

क्रमांक एफ 7-1/36/अन्य/2022/158.—राज्य शासन एतद्वारा दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित मात्स्यिकी महाविद्यालय, कबीरधाम का नाम “स्व. श्री पुनाराम निषाद” के नाम पर घोषित करता है. तदनुसार मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम के संबंध में “स्व. श्री पुनाराम निषाद मात्स्यिकी महाविद्यालय” नाम का उपयोग समस्त शासकीय कार्यों में किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तुलिका प्रजापति, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 6 मई 2022

क्रमांक 19/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | लुण्ड्रा | बरडीह प.ह.नं. 14 | 5.324 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.). | बरडीह झखरी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं डूबान क्षेत्र के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 12 मई 2022

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-गरियाबंद
(ग) नगर/ग्राम-कौन्दकेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 114 | 0.04 |
| 135 | 0.01 |
| 152 | 0.03 |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2255/202107220300025/अ-82/वर्ष 2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

| (1) | (2) |
|-------|------|
| 115 | 0.03 |
| 116 | 0.01 |
| 136 | 0.03 |
| 146/1 | 0.03 |
| 145 | 0.04 |
| 442 | 0.02 |
| योग | 0.24 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कौन्दकेरा-खेडीटिकरा मार्ग पर सती (ढेका) नाला पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुँच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नम्रता गांधी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 6 मई 2022

क्रमांक 21/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-नवडीहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.163 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 34/10 | 0.094 |

| (1) | (2) |
|-------|-------|
| 41/2 | 0.164 |
| 34/3 | 0.081 |
| 170 | 0.182 |
| 34/7 | 0.109 |
| 171 | 0.178 |
| 34/2 | 0.092 |
| 34/11 | 0.078 |
| 30 | 0.021 |
| 41/1 | 0.164 |
| योग | 1.163 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करौली व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गेरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.437 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) | (1) | (2) |
|---|------------------------|--|-------|
| (1) | (2) | 557 | 0.057 |
| 67 | 0.437 | 601/2 | 0.045 |
| | | 920/7 | 0.060 |
| योग | 01 | 468 | 0.049 |
| | | 472 | 0.032 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान में हेतु. | | 477 | 0.008 |
| | | 533 | 0.065 |
| | | 611/1 | 0.024 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. | | 773 | 0.032 |
| | | 539/3 | 0.004 |
| | | 543/2 | 0.008 |
| | | 558 | 0.061 |
| रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022 | | 476/1 | 0.026 |
| | | 542/2 | 0.020 |
| भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202103042100088/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— | | 473 | 0.121 |
| | | 476/2 | 0.012 |
| | | 546 | 0.065 |
| | | 612/1 | 0.186 |
| | | 786 | 0.032 |
| | | 540/2 | 0.057 |
| | | 544 | 0.065 |
| | | 560/2 | 0.024 |
| | | 569/2 | 0.032 |
| | | 470 | 0.032 |
| | | 602 | 0.077 |
| (1) भूमि का वर्णन- | | 481/1 | 0.020 |
| (क) जिला-रायगढ़ | | 548 | 0.057 |
| (ख) तहसील-पुसौर | | 613 | 0.036 |
| (ग) नगर/ग्राम-तरड़ा | | 539/1 | 0.008 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.810 हेक्टेयर | | 612/2 | 0.008 |
| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) | 547 | 0.041 |
| (1) | (2) | 597 | 0.154 |
| | | 482/1 | 0.012 |
| 461 | 0.012 | योग | 41 |
| 471 | 0.032 | | 1.810 |
| 475/2 | 0.041 | | |
| 481/2 | 0.012 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत कोड़पाली सब माइनर नहर निर्माण हेतु. | |
| 596 | 0.049 | | |
| 772 | 0.073 | | |
| 539/2 | 0.008 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. | |
| 542/1 | 0.053 | | |

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202103042100089/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पुसौर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.493 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 1155/1 | 0.093 |
| 1196/3 | 0.016 |
| 1155/3 | 0.056 |
| 1197/1 | 0.089 |
| 1189/4 | 0.101 |
| 1197/2 | 0.085 |
| 1196/2 | 0.053 |
| योग | 07 0.493 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर एवं पुसौर माईनर-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202103042100090/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सुकुलभठली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.840 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 54/20 | 0.145 |
| 196 | 0.012 |
| 197/4 | 0.030 |
| 37/2 | 0.093 |
| 197/2 | 0.162 |
| 197/7 | 0.031 |
| 37/1/क | 0.016 |
| 202/1/क | 0.121 |
| 189/2 | 0.081 |
| 38 | 0.012 |
| 202/5 | 0.137 |
| योग | 11 0.840 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत पुसौर माईनर-1 एवं बाघाडोला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202103042100091/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-पड़गांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.164 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 80/5 | 0.053 |
| 275/1ग | 0.162 |
| 317/9 | 0.069 |
| 1271/8 | 0.016 |
| 275/26 | 0.130 |
| 244/1 | 0.105 |
| 1131/2 | 0.101 |
| 217/3 | 0.020 |
| 217/1क | 0.012 |
| 275/27 | 0.101 |
| 1264/3 | 0.141 |
| 275/1ख | 0.016 |
| 311/1, 312/2 | 0.161 |
| 300/20, 302/1, 301/1729 | 0.077 |
| योग | 14 |
| | 1.164 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत पड़गांव माइनर-1, पड़गांव माइनर-2 एवं नवापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-नवापारा (अ)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.214 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------------------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 29/1 | 0.061 |
| 74/2 | 0.202 |
| 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1 | 0.069 |
| 215 | 0.081 |
| 196 | 0.081 |
| 203 | 0.012 |
| 200 | 0.020 |
| 202/1 | 0.012 |
| 27 | 0.032 |
| 142/3 | 0.032 |
| 142/5 | 0.081 |
| 149/1 | 0.020 |
| 217 | 0.032 |
| 205 | 0.061 |
| 325 | 0.041 |
| 202/2 | 0.041 |
| 147/2 | 0.032 |
| 26/1 | 0.299 |
| 144/2 | 0.121 |
| 149/3 | 0.101 |
| 216/2 | 0.085 |
| 204/1 | 0.105 |
| 326 | 0.041 |
| 202/3 | 0.036 |
| 28/1 | 0.012 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------------------------------|-------|--------|-------|
| 70/2, 71/2, 72/2, 73/2, 74/3 | 0.117 | 199/11 | 0.032 |
| 144/3 | 0.157 | | |
| 203/327 | 0.012 | योग | 03 |
| 216/1 | 0.028 | | 0.095 |
| 204/8 | 0.032 | | |
| 324/2 | 0.024 | | |
| 149/4 | 0.089 | | |
| 321/1ख, 322/2ख, 323/1ख/2 | 0.045 | | |
| योग | 33 | | |
| | 2.214 | | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत घुटकुपाली माईनर एवं दर्रीपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202111042100050/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छातामुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.187 हेक्टेयर

खसरा नम्बर रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

735/2 0.020
736/3 0.065
736/4 0.041
616/6 0.061

योग 04 0.187

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202111042100049/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-भाउनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.095 हेक्टेयर

खसरा नम्बर रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

199/10 0.018
199/6 0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत छातामुड़ा, सहदेवपाली एवं नन्हईडीपा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

| रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022 | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|------------|------------------------|
| भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202111042100051/अ-82/ 2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— | (1) | (2) |
| | 917/3 | 0.041 |
| | 1322/4 | 0.049 |
| | 757/1 | 0.061 |
| | 1030 | 0.016 |
| | 1301/6 | 0.016 |
| योग | 05 | 0.182 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—केलो परियोजना के अंतर्गत बड़ेकेरा, अघरियापारा, नन्हाईडिपा, लघु नहर निर्माण हेतु. | | |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. | | |
| छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भीम सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. | | |

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़उमरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

क्रमांक/251/भू.अ./प्र.अ.भू.अ./2021.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय-7 की धारा 68, 69, 70, 72, 73 एवं सह पठित धारा 90 के प्रावधान अनुसार मैं तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर जिला राजनांदगांव एतद्वारा तहसील डोंगरगांव, राजस्व निरीक्षक मंडल आसरा, पटवारी हल्का नंबर 15 के ग्राम आसरा के आंतरिक क्षेत्रफल को अपवर्जित कर ग्राम अड़म को नवीन राजस्व ग्राम अधिसूचित करता हूँ.

(1) नवीन राजस्व ग्राम अड़म का क्षेत्रफल निम्नानुसार है :—

| क्र. (1) | भूमि मदवार (2) | ग्राम अड़म (3) |
|-------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | ग्राम का कुल रकबा | 314.839 हे. |
| 2 | खाते का रकबा | 278.294 हे. |
| 3 | गैर खाता एवं निस्तार का रकबा | 36.545 हे. |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--------------|-----------|
| 4 | आबादी भूमि | 2.549 हे. |
| 5 | जनसंख्या | 983 |
| 6 | मवेशी संख्या | 647 |

(2) अपवर्जित राजस्व ग्राम आसरा का क्षेत्रफल निम्नानुसार है :—

| क्र. (1) | भूमि मदवार (2) | ग्राम आसरा (3) |
|-------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | ग्राम का कुल रकबा | 1073.610 हे. |
| 2 | खाते का रकबा | 964.811 हे. |
| 3 | गैर खाता एवं निस्तार का रकबा | 108.799 हे. |
| 4 | आबादी भूमि | 10.570 हे. |
| 5 | जनसंख्या | 2432 |
| 6 | मवेशी संख्या | 995 |

तारन प्रकाश सिन्हा,
कलेक्टर.

तकनीकी शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

भिलाई, दिनांक 26 मई 2022

क्रमांक 55/छगस्वावितवि/प्रशा./2022.—छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 66(2) के तहत, राज्यपाल/कुलाधिपति द्वारा दिनांक 18 मई 2022 और 05 अक्टूबर 2021 को अनुमोदन उपरांत छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई संशोधित अध्यादेश क्रमांक 31 — “विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिए वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों सम्बंधी अध्यादेश”, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है. यह अध्यादेश राज्यपाल/कुलाधिपति के अनुमोदन की तिथि से प्रवृत्त होता है.

अस्वीकरण : अध्यादेश अंग्रेजी में अनुमोदित है. अनुमोदित अध्यादेश का यह हिन्दी अनुवाद है. यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित अध्यादेश मान्य होगा.

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

संशोधित अध्यादेश क्रमांक - 31

(अनुच्छेद 38 की धारा 15 देखें)

विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिए वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों सम्बंधी अध्यादेश

मौजूदा अध्यादेश क्रमांक 31 में कड़िका 2.1, 2.1.1, 2.1.2 व 4 का समावेश

2.1 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, एम.सी.ए., प्रबंधन, भेषजी, वास्तुकला, नगर आयोजन के शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती

| कार्यक्रम | संवर्ग | न्यूनतम अर्हताएं | अनुभव |
|--------------------------------|------------------|--|---|
| अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, | सहायक प्राध्यापक | बी.ई./बी.टेक. या एम.ई./एम.टेक. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ संबंधित संकाय में बी.ई./बी.टेक. एवं एम.ई./एम.टेक. | |
| एम.सी.ए. | सहायक प्राध्यापक | बी.ई./बी.टेक. या एम.ई./एम.टेक. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ संबंधित संकाय में बी.ई./बी.टेक. एवं एम.ई./एम.टेक. अथवा बी.ई./बी.टेक. या एम.सी.ए. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ बी.ई./बी.टेक. एवं एम.सी.ए. अथवा प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एम.सी.ए. के साथ दो वर्षों का संबंधित अनुभव | |
| प्रबंधन | सहायक प्राध्यापक | प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में व्यवसाय प्रकाशन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष तथा 2 वर्ष का संबंधित अनुभव वांछनीय | |
| भेषजी | सहायक प्राध्यापक | स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ भेषजी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि | |
| वास्तुकला | सहायक प्राध्यापक | वास्तुकला में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ वास्तुकला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि | |
| नगर आयोजन | सहायक प्राध्यापक | स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ नगर आयोजन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि | |
| | सह प्राध्यापक | उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक पद की अर्हता, जैसा लागू हो, एवं उपयुक्त संकाय में पीएच.डी., पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी. विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय | शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्षों का अनुभव पीएच.डी. उपरांत वांछनीय है. वास्तुकला के संदर्भ में |

| | | | |
|--|------------|---|---|
| | | | वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 5 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव भी मान्य होगा. |
| | प्राध्यापक | उपरोक्तानुसार सह प्राध्यापक पद के लिए अर्हता, जैसा लागू हो, पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी. विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय | <p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव सह-प्राध्यापक स्तर में हो.</p> <p>या</p> <p>शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव.</p> <p>शोध क्षेत्र में अनुभव की स्थिति में, उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड एवं पुस्तकों/शोध पत्रों का प्रकाशन/आई.पी.आर./पेटेंट संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें.</p> <p>यदि औद्योगिक अनुभव को मान्य किया जाता है तो वह, सह प्राध्यापक के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर का हो, जिसमें साथ ही उपाय/अभिकल्पन, आयोजन, क्रियान्वयन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन/आई.पी.आर./पेटेंट आदि के रूप में, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें, सक्रिय प्रतिभागिता हो.</p> <p>वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 10 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव भी मान्य होगा.</p> |
| | निदेशक | उपरोक्तानुसार प्राध्यापक पद की अर्हता, जैसा लागू हो. पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी. विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय | <p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्षों का अनुभव प्राध्यापक स्तर में हो,</p> <p>या</p> <p>शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव.</p> <p>शोध क्षेत्र में अनुभव की स्थिति</p> |

| | | | |
|----------|--------------|---|---|
| | | | <p>में, उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड एवं पुस्तकों/शोध पत्रों का प्रकाशन/आई.पी.आर./पेटेंट संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें।</p> <p>यदि औद्योगिक अनुभव को मान्य किया जाता है तो वह, प्राध्यापक के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर का हो, जिसमें साथ ही उपाय/अभिकल्पन विकास आयोजन, क्रियान्वयन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन आई.पी.आर./पेटेंट आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें।</p> <p>प्रबंधन में अभिरूचि एवं नेतृत्व का गुण अनिवार्य है।</p> <p>वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 10 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव भी मान्य होगा।</p> |
| डिप्लोमा | व्याख्याता | प्रासंगिक शाखा में बी.ई./बी.टेक./बी.एस. प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ। | |
| | विभागाध्यक्ष | <p>प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. तथा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी, शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें कम से कम दो वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) के स्तर पर पीएच.डी. के पश्चात् का हो।</p> <p>अथवा</p> <p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 15 वर्ष के अनुभव के साथ, प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात डिग्री, जिसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) के स्तर पर हो।</p> | |

2.1.1 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में व्याख्याता के रूप में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं

डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में व्याख्याता के पद पर सीधी भर्ती आवेदन के समय उम्मीदवार की अर्हताओं के आधार पर दो विभिन्न वेतन स्तरों में की जाएगी। संकाय सदस्यों के लिए सीधी भर्ती, छानबीन और

प्रोन्नतियों के लिए विभिन्न लेवलों हेतु न्यूनतम अर्हता, अनुभव, शोध योगदान, प्रतिपुष्टि और अपेक्षित प्रशिक्षण अपेक्षाएं इस प्रकार हैं :-

2.1 (1) व्याख्याता की सीधी भर्ती के लिए (लेवल- 9 ए, प्रवेश वेतन 56,100/-)

चार वर्ष की स्नातक डिग्री धारण करने वाले को लेवल 9 ए में रु. 56,100/- के प्रवेश वेतन पर रखा जाएगा.

(क) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी

प्रासंगिक शाखा में बी.ई./बी.टेक./बी.एस. प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ.

(ख) भेषजी

बी.फार्मा. प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ.

(ग) होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी

होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ.

(घ) वास्तुकला

बी.आर्क अथवा किसी संबद्ध क्षेत्र में चार वर्षीय डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ.

(ङ) ललित कला

ललित कला के उपयुक्त विषयक्षेत्र (अनुप्रयुक्त कला, चित्रकला तथा मूर्तिकला) में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ.

(च) डिजाईन

डिजाईन में स्नातक डिग्री अथवा डिजाईन, ललित कला, अनुप्रयुक्त कला और वास्तुकला की शाखाओं में से किसी एक में न्यूनतम 4 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ इंजीनियरी में स्नातक डिग्री.

(छ) विज्ञान और मानविकी

उपयुक्त विषय में निष्णात डिग्री के साथ स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष.

2.1 (2) व्याख्याता (लेवल-10, प्रवेश वेतन 57,700/-) की सीधी भर्ती के लिए

(क) तकनीकी विषय क्षेत्रों के लिए

प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक तथा निष्णात डिग्री जिसमें दोनों में से किसी एक में चयन के समय पर प्रथम श्रेणी.

(ख) विज्ञान एवं मानविकी

प्रासंगिक विषय क्षेत्र में निष्णात डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)' अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी के समान परीक्षा जैसे कि स्लैट (एसएलईटी/सैट(एसईटी)) अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हों.

(ग) पदधारी व्याख्याताओं की लेवल 9ए से लेवल 10 में प्रोन्नति के लिए

- i) तकनीकी विषय क्षेत्र से उम्मीदवार को लेवल 10 के उपयुक्त सेल में उस समय रखा जाएगा, जब वह उम्मीदवार प्रासंगिक तकनीकी विषय क्षेत्र में निष्णात डिग्री प्राप्त कर लेगा.

- ii) विज्ञान एवं मानविकी से उम्मीदवार को लेवल 10 के उपयुक्त सैल में तब रखा जाएगा जब कभी वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी के समान परीक्षा जैसे कि स्लैट (एसएलईटी/सैट(एसईटी)) उत्तीर्ण कर लेगा.
- iii) तकनीकी विषय क्षेत्र तथा विज्ञान एवं मानविकी के उम्मीदवारों के मामले में यदि उम्मीदवार प्रासंगिक निष्णात डिग्री प्राप्त नहीं करता है एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा" (नेट) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी के समान परीक्षा जैसे कि स्लैट (एसएलईटी/सैट(एसईटी)) उत्तीर्ण नहीं करता है तो उन्हें केवल पांच वर्ष पूरे करने के उपरान्त ही लेवल 10 के उपयुक्त सैल में रखा जाएगा.

2.1 (3) व्याख्याता (वरिष्ठ मान) (लेवल-11, प्रवेश वेतन 68,900/-) के लिए न्यूनतम अर्हताएं

- 1) व्याख्याता के पद के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं

और

- 2) व्याख्याता के स्तर पर तीन सप्ताह का औद्योगिक प्रशिक्षण

और

- 3) अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/शिक्षक तथा शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी)/आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 2 सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा जिसमें से कम-से-कम एक एफडीपी उन्नत शिक्षा शास्त्र में हो.

अथवा

- 3) उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम और एनपीटीईएल- अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन का आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

- 3) एनपीटीईएल- अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों

और

- 4) न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता के कैडर में 10 के पैमाने पर 8 से 10 के बीच औसत 360°प्रतिपुष्टि स्कोर.

अथवा

- 4) न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता के कैडर में 10 के पैमाने पर 5 से < 8 के बीच औसत 360°प्रतिपुष्टि स्कोर.

2.1 (4) व्याख्याता (चयन ग्रेड-1)(लेवल-12, प्रवेश वेतन 79,800/-) के लिए न्यूनतम अर्हताएं

- 1) व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के पद के लिए निर्धारित अर्हता प्रासंगिक विषय में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष जिसमें स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर किसी में भी प्रथम श्रेणी डिग्री प्राप्त की हो.

और

- 2) व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के स्तर पर तीन सप्ताह का औद्योगिक प्रशिक्षण

और

- 3) अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/शिक्षक तथा शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएमटीटी)/आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 2 सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम.

अथवा

उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम और एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन का आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों

और

- 4) न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के कैडर में 10 के पैमाने पर 8 से 10 के बीच औसत 360°प्रतिपुष्टि स्कोर.
- 4) न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के कैडर में 10 के पैमाने पर 5 से <8 के बीच औसत 360°प्रतिपुष्टि स्कोर.

- 2.1 (5) व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) (लेवल-13ए, प्रवेश वेतन 131,400/-) के लिए न्यूनतम अर्हताएं

- 1) व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) के पद लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं

और

- 2) व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) के स्तर पर तीन सप्ताह का औद्योगिक प्रशिक्षण

और

- 3) अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/शिक्षक तथा शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएमटीटी)/आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 2 सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम.

अथवा

- 3) उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम और एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन का आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

- 3) एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों

और

- 4) न्यूनतम 3 वर्षों के अनुभव के साथ प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पी.एच.डी. डिग्री, एस.सी.आई. पत्रिकाओं/यूजीसी./अभातशिप/सी.ओ.ए./पी.सी.आई. द्वारा अनुमोदित जर्नल सूची में 2 शोध प्रकाशन, तथा व्याख्याता (चयन ग्रेड-1) लेवल-12 के कैडर में 10 के पैमाने पर 8 से 10 के बीच औसतन 360° प्रतिपुष्टि स्कोर.

अथवा

न्यूनतम 4 वर्षों के अनुभव के साथ प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पी.एच.डी. डिग्री, एस.सी.आई. पत्रिकाओं/यूजीसी./अभातशिप/सी.ओ.ए./पी.सी.आई. द्वारा अनुमोदित जर्नल सूची में 2 शोध प्रकाशन, तथा व्याख्याता (चयन ग्रेड-1) लेवल-12 के कैडर में 10 के पैमाने पर 5 से < 8 के बीच औसतन 360° प्रतिपुष्टि स्कोर.

अथवा

न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता (चयन ग्रेड-1) लेवल-12 के कैडर में 10 के पैमाने पर 8 से 10 के बीच औसतन 360° प्रतिपुष्टि स्कोर.

अथवा

न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता (चयन ग्रेड-1) के कैडर में 10 के पैमाने पर 5 से < 8 के बीच औसतन 360° प्रतिपुष्टि स्कोर.

टिप्पणियां : 360° प्रतिपुष्टि

1. प्रोन्नति की अपेक्षाओं के लिए, अगली अवस्था की पात्रता की तिथि तक, प्रति वर्ष प्राप्त प्रतिपुष्टि से सभी पूर्ववर्ती वर्षों की प्रतिपुष्टि को जोड़कर उसके औसत को लिया जाएगा.
2. ऐसे मामले में जहाँ उम्मीदवार विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिपुष्टि अंक (स्कोर) प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके पूर्ववर्ती वर्षों की प्रतिपुष्टि को विचार के लिए लिया जाएगा जबकि उनमें से किसी, उस एक वर्ष को छोड़ दिया जाएगा जिसमें न्यूनतम प्रतिपुष्टि स्कोर प्राप्त हुआ होगा.

2.1 (6) विभागाध्यक्ष (लेवल-13ए1, प्रवेश वेतन 1,31,400/-) के लिए न्यूनतम अर्हताएं सीधी भर्ती के लिए

प्रासंगिक क्षेत्र में पी.एच.डी. तथा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी, शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें कम से कम दो वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) के स्तर पर पी.एच.डी. के पश्चात् का हो.

अथवा

शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 15 वर्ष के अनुभव के साथ, प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात डिग्री, जिसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) के स्तर पर हो.

4. "सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त { (क) दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृश्यता; (ख) बधिर और कम सुनाई देना; (ग) लोकोमोटर निशक्ता साथ ही सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी; (घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निशक्ता, विशिष्ट अधिगम निशक्ता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ) गूंगापन-अंधापन सहित (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहु निशक्ताता से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। न्यूनतम पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लेखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमेय है।"

No. 55/छगस्वावितवि/प्रशा./2022.- Under section 66 (2) of Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Act, 2014 after the approval of the Governor/Chancellor on 18 May 2022 & 05 Oct. 2021 Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai Amendment Ordinance No. 31 - "Ordinance for Qualifications and Conditions of Appointment including Pay Scales of the Teachers and other cadre of the University payable by the University", is hereby notified. This Ordinance is effective from the date of approval by the Governor/Chancellor.

Amended Ordinance No. 31

(Refer clause 15 of Sections 38)

Ordinance for Qualifications and Conditions of Appointment including Pay Scales of the Teachers and other cadre of the University payable by the University

Insertion of clauses 2.1, 2.1.1, 2.1.2 and 4 in the existing Ordinance No. 31

2.1 Direct Recruitment for teaching positions in Engineering and Technology, MCA, Management, Pharmacy, Architecture, Town Planning

| Programme | Cadre | Qualifications | Experience |
|----------------------------|---------------------|--|---|
| Engineering And Technology | Assistant Professor | BE/BTech and ME/MTech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/BTech or ME/MTech | -- |
| MCA | Assistant Professor | BE/BTech and ME/MTech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/BTech or ME/MTech OR BE/ BTech and MCA with First class or equivalent in either BE / BTech or MCA OR MCA with first class or equivalent with two years relevant experience. | |
| Management | Assistant Professor | First Class or equivalent in Masters Degree in Business Administration or equivalent and 2 years relevant experience is desirable | |
| Pharmacy | Assistant Professor | Bachelors and Masters Degree in Pharmacy with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree | |
| Architecture | Assistant Professor | Bachelors and Masters Degree in Architecture with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree | |
| Town Planning | Assistant Professor | Bachelors and Masters Degree in Town Planning with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree | |
| | Associate Professor | Qualification as above that is for the post of Assistant Professor, as applicable and PhD or equivalent, in appropriate discipline Post PhD publications and guiding PhD student is highly desirable | Minimum of 5 years experience in teaching / research / industry of which 2 years post PhD experience is desirable. In case of Architecture, Professional Practice of 5 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid. |
| | Professor | Qualification as above that is for the post of Associate Professor, as applicable Post PhD publications and guiding PhD | Minimum of 10 years teaching/research/ industrial experience of |

| | | | |
|--|----------|--|--|
| | | students is highly desirable | <p>which at least 5 years should be at the level of Associate Professor</p> <p>or</p> <p>Minimum of 13 years experience in teaching and/or research and/or Industry.</p> <p>In case of research experience, good academic record and books / research paper publications / IPR / patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the selection committee.</p> <p>If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Associate Professor with active participation record in devising/designing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books / research paper publications / IPR / patents, etc as deemed fit by the expert members of the Selection committee.</p> |
| | | | In case of Architecture, Professional Practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid. |
| | Director | <p>Qualification as above that is for the post of Professor, as applicable</p> <p>Post PhD publications and guiding PhD students is highly desirable</p> | <p>Minimum of 10 years experience in teaching / Research / Industry out of which at least 3 years shall be at the level of Professor.</p> <p>or</p> <p>Minimum of 13 years experience in teaching and/or Research and/or</p> |

| | | | |
|---------|------------------------|--|---|
| | | | <p>Industry.</p> <p>In case of research experience, good academic record and books /research paper publications / IPR / patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection committee.</p> <p>If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Professor level with active participation record in devising / designing, developing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books / research paper publications / IPR / patents, etc as deemed fit by the expert members of the Selection committee.</p> <p>Flair for Management and Leadership is essential.</p> <p>In case of Architecture, Professional Practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.</p> |
| Diploma | Lecturer | B.E./ B.Tech. /B. S. in relevant discipline with First Class or equivalent | ---- |
| | Head of the Department | <p>Ph.D. in relevant field and First Class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline; minimum of 12 years of experience in Teaching/ Research/ Industry, out of which at least 2 years shall be post Ph.D. experience minimum at the level of Lecturer (Selection Grade-I).</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Bachelor's and Master's Degree in relevant discipline with minimum of 15 years of</p> | ---- |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | experience in Teaching/ Research/ Industry, out of which at least 3 years shall be at the level of Lecturer (Selection Grade -II) | |
|--|--|---|--|

2.1.1 Minimum Qualification for Direct Recruitment as Lecturer in Diploma Level Institutions

Direct recruitment on the post of lecturer shall be made at two different levels of pay in diploma level institutions based on the qualifications of the candidate at the time of application. Minimum qualification, experience, research contributions, feedback and requisite training requirements for different levels for direct recruitment, screening and promotions for the faculty members are as follows.

2.1 (1) For Direct Recruitment of Lecturer (Level-9A, Entry Pay 56,100/-)

Those possessing a minimum of 4-year Bachelor's degree shall be placed in Level 9A at entry pay of Rs.56,100/-

(a) Engineering/Technology

B. E./B. Tech. / B. S. in relevant discipline with First Class or equivalent.

(b) Pharmacy

B. Pharm. with First Class or equivalent.

(c) Hotel Management and Catering Technology

A minimum 4-year Bachelor's Degree in HMCT with First Class or equivalent.

(d) Architecture

B.Arch. or a 4-year Degree in an allied field with First Class or equivalent.

(e) Fine Arts

Bachelor's degree in appropriate discipline of Fine Arts (Applied Arts, Painting and Sculpture) or equivalent with First Class or equivalent.

(f) Design

Bachelor's degree in design or a minimum 4-year Diploma in any one of the streams of Design. Fine Arts, Applied Arts and Architecture or Bachelor's degree in Engineering with First Class or equivalent.

(g) Sciences and Humanities

Master's degree in appropriate subject with First Class or equivalent at Bachelor's or Master's level.

2.1 (2) For Direct Recruitment of Lecturer (Level-10., Entry Pay 57,700/-)

(a) For Technical Disciplines

Bachelor's and Master's Degrees in relevant disciplines with First Class in either of the two at the time of selection.

(b) For Sciences and Humanities

A Master's degree with First Class or equivalent in a relevant subject and, must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR. or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.

(c) For Promotion of incumbent Lecturer in Level 9a to Level 10

- (i) Candidates from technical disciplines shall be placed in Level 10 at suitable cell as and when the candidates acquire the Master's degree in relevant technical discipline.
- (ii) Candidates of Sciences and Humanities shall be placed in Level 10 at suitable cell as and when the candidates clear the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.
- (iii) In case candidates do not acquire relevant Master's degree in the case of technical disciplines and in case of candidates from Sciences and Humanities do not clear National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET / SET, they shall be placed in appropriate cell of level 10 only after completion of 5 years.

2.1 (3) Minimum Qualifications for Lecturer (Senior scale) (Level-11, Entry Pay 68900/-)

- 1) Qualifications as prescribed for the post of Lecturer.

AND

- 2) Three weeks of industrial training at the level of Lecturer.

AND

- 3) Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) recognised by AICTE/UGC/TEQIP/NITTTR/ Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMNMTT)/IISc/IIT /University/Govt. and out of which at least one of the FDPs shall be in advanced Pedagogy:

OR

- 3) One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE.

OR

- 3) Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL AICTE.

AND

- 4) Minimum 5 years of experience and an average 360° feedback score between 8 to 10 on the scale of 10 in the cadre of Lecturer (Senior Scale).

OR

- 4) Minimum 6 years of experience and an average 360° feedback score between 5 to <8 on the scale of 10 in the cadre of Lecturer (Senior Scale).

2.1 (4) Minimum Qualifications for Lecturer (Selection Grade-I) (Level-12, Entry Pay 79800/-)

- 1) Qualification as prescribed for the post of Lecturer (Senior Scale) necessarily with a Master's Degree in relevant discipline in First Class or equivalent either at Bachelor's or at Master's level.

AND

- 2) Three weeks of industrial training at the level of Lecturer (Senior Scale)

AND

- 3) Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) recognised by AICTE/UGC/ TEQIP/NITTTR/Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT)/IISc/IIT/University/Govt.

OR

One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE

OR

Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE.

AND

- 4) Minimum 5 years of experience with an average 360° feedback score between 8 to 10 on the scale of 10 in the cadre of Lecturer (Senior Scale).

OR

- 4) Minimum 6 years of experience with an average 360° feedback score between 5 to <8 on the scale of 10 in the cadre of Lecturer (Senior Scale).

2.1 (5) Minimum Qualifications for Lecturer (Selection Grade-II) (Level - 13A1, Entry Pay 131400/-)

- 1) Qualifications as prescribed for the post of Lecturer (Selection Grade-I).

AND

- 2) Three weeks of industrial training at the level of Lecturer (Selection Grade-I)

AND

- 3) Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) recognised by AICTE/UGC/TEQIP/NITTTR/Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT)/IISc/IIT /University/Govt.

OR

One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE.

OR

Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE.

AND

- 4) Ph. D. in relevant discipline with minimum 3 years of experience, 2 research publications in SCI journals/UGC/AICTE/ COA/ PCI approved list of journals and an average 360° feedback score between 8 to 10 on a scale of 10, all in the cadre of Lecturer (Selection Grade-I) Level - 12.

OR

Ph. D. in relevant discipline with minimum 4 years of experience. 2 research publications in SCI Journals/UGC/AICTE. COA/ PCI approved list of journals and an average 360° feedback score between 5 to <8 on a scale of 10, all in the cadre of Lecturer (Selection Grade-I) Level - 12.

OR

Minimum 6 years of experience with an average 360° feedback score between 8 to 10 on a scale of 10, all in the cadre of Lecturer (Selection Grade-I) Level - 12.

OR

Minimum 8 years of experience with an average 360° feedback score between 5 to <8 on a scale of 10, all in the cadre of Lecturer (Selection Grade-I) Level - 12.

Note: 360° Feedback

1. The feedback obtained every year, till the date of eligibility of next stage, shall be taken as an average of all the preceding years added together required for promotions.
2. In case the candidate fails to achieve the minimum specified feedback score, the subsequent year's may be taken into consideration while dropping the lowest feedback score in any one of the year.

2.1.2 Minimum Qualifications for Head of the Department (Level-13A1, Entry Pay 131400/-)

For Direct Recruitment

Ph. D. in relevant field and First Class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline: minimum of 12 years of experience in Teaching/ Research/ Industry, out of which at least 2 years shall be post Ph.D. experience minimum at the level of Lecturer (Selection Grade-I).

OR

Bachelor's and Master's Degree in relevant discipline with minimum of 15 years of experience in Teaching/Research/Industry, out of which at least 3 years shall be at the level of Lecturer (Selection Grade-II).

4. "A relaxation of 5% shall be allowed at the Bachelor's as well as at the Master's level for the candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Differently abled ((a) Blindness and low vision; (b) Deaf and Hard of Hearing; (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid-attack victims and muscular dystrophy; (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) Multiple disabilities from amongst persons under (a) to (d) including deaf-blindness) for the purpose of eligibility and assessing good academic record for direct recruitment. The minimum eligibility marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks."

डॉ. के. के. वर्मा,
कुलसचिव.
